### Psychometric Test 1

**Time Limit: 20mins** 

Name:	Class:	Course:	
Place:	Registered Contact Number :		WhatsApp

#### **INSTRUCTIONS:-**

The following items are arranged in pairs ('a' and 'b') and each member of the pair represents a preference you may or may not hold. Rate your preference for each item, by giving it a score on a scale ranging from 0 to 5. (For example, 0 meaning you really feel negative about it or strongly about the other member of the pair, and 5 meaning you strongly prefer it or do not prefer the other member of the pair). The scores for 'a' and 'b' must add up to 5. For example: 0 and 5, or 1 and 4, or 2 and 3, etc.) Do not use fractions such as 1.5 and 3.5.

### निर्देश:-

निम्नलिखित मदों को जोड़े ('a' और 'b') में व्यवस्थित किया जाता है और जोड़ी के प्रत्येक सदस्य एक वरीयता को दर्शाता है। प्रत्येक आइटम के लिए अपनी वरीयता को रेट करें, इसे 0 से 5 के पैमाने पर स्कोर देकर (उदाहरण के लिए, 0 का अर्थ है कि आप वास्तव में इसके बारे में नकारात्मक महसूस करते हैं या जोड़ी के अन्य सदस्य के बारे में दृढ़ता से, और 5 का अर्थ है जो आप इसे दृढ़ता से पसंद करते हैं या जोड़ी के अन्य सदस्य को पसंद नहीं करते)। 'a' और 'b' को मिलाकर कुल जोड़ 5 होगा। उदाहरण के लिए: 0 और 5, या 1 और 4, या 2 और 3, आदि। 1.5 और 3.5 जैसे अंशों का उपयोग न करें।

I Pre	er DEFENCE	Score
	Making decisions after finding out what others think.	Score
1 6		
	(दूसरों को क्या लगता है यह पता लगाने के बाद <mark>निर्णय लेना।)</mark>	
1	o) Making decisions without consulting others. (दूसरों की सलाह के बिना निर्णय लेना।)	
2   8	a) Being called imaginative or intuitive. (कल्पनाशील या सहजज्ञानी।)	
1	b) Being called factual and accurate. (तथ्यात्मक और सटीक।)	
3 a	Making decisions about people in organisations based on available data and systematic	
	analysis of situations.	
	(उपलब्ध आंकड़ों और स्थितियों के व्यवस्थि <mark>त विश्लेषण के आधार</mark> पर संगठनों में लोगों के बारे में निर्णय	
	लेना।)	
1	b) Making decisions about people in organisations based on empathy, feelings, and	
	understanding of their needs and values. (सहानुभूति ,भावनाओं और उनकी जरूरतों और मूल्यों	
	की समझ के आधार पर संगठनों में लोगों के बारे में निर्णय लेना।)	
4 a	Allowing commitments to occur if others want to make them.	
	(प्रतिबद्धता होने की अनुमति दे अगर दूसरे उन्हें बनाना चाहते हैं।)	
1	Pushing for definite commitments to ensure that they are made.	
	(निश्चित प्रतिबधताओ के लिए प्रेरणा देकर उसे कुछ बनने के लिए सुनिश्चित करना)	
5	Quiet, thoughtful time alone. (शांत,अकेले विचारशील समय।)	
	Active, energetic time with people. (लोगों के साथ सक्रिय ,ऊर्जावान समय)	
6 a	Using methods I know well that are effective to get the job done.	
	(ऐसे तरीकों का उपयोग करना जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूं जो काम पूरा करने के लिए प्रभावी हैं।)	
1	Trying to think of new methods of doing tasks when confronted with them.	
	(उनके साथ सामना करने पर कार्यों को करने के नए तरीकों के बारे में सोचने की कोशिश करना।)	
7 8	n) Drawing conclusions based on unemotional logic and careful step-by-step analysis.	

# Psychometric Test 1

**Time Limit: 20mins** 

असमान वर्त और सावधान कदम-दर-चरण विश्लेषण के आधार पर निकर्ण निकालना)			Zimit: Zomin
experiences. (मैं जो अनुभव करता हूं और पिछले अनुभवों से लोगों और लोगों के बारे में विश्वास करता हूं, उसके आधार गर निकर्ण निकालना)  8 a) Avoid making deadlines. (डेडलाइन बनाने से बचें)  b) Seeking a schedule and sticking to it. (एक कार्यक्रम की तलाश और उससे विपके रहे)  a) Talking a while and then thinking to myself about the subject.  (थोड़ी देर बात करना और फिर अपने विषय के बारे में सोचना)  b) Talking freely for an extended period and thinking to myself at a later time.  (एक विस्तारित अविष्ठ के लिए स्वतंत रूप से बात करना और बाद में अपने आप को सोचना)  10 a) Thinking about possibilities. (संभावनाओं के बारे में सोचना)  b) Dealing with actualities. (संभावनाओं के बारे में सोचना)  b) Dealing with actualities. (संभावनाओं से निपटना)  11 a) Being thought of as a feling person.(एक विचारशील व्यक्ति के रूप में सोचना)  b) Being thought of as a feeling person.(एक सावनाशील व्यक्ति के रूप में सोचना)  b) Getting the information I need, considering it for a while, and then making a decision.  (निर्णिय लेने में पहले और बाद में लंचे समय तक हर संभव प्रकार परिवार करना, और फिर एक त्वरित, दृढ निर्णय लेना)  13 a) Inner thoughts and feelings others cannot see.  (आंतरिक विचार और भावनाएं अन्य खोग नहीं देव सकते हैं)  b) Activities and occurrences in which others join. (मितिविधियों और घटनाएं जिनमें अन्य लोग शामिल होते हैं)  14 a) The abstract or theoretical. (सार या सैद्धांतिक)  b) The concrete or real. (ठोत या बास्वविक)  15 a) Helping others explore their feelings. (दूसरों की भावनाओं को जानने में मदद करना)  b) Helping others make logical decisions. (दूसरों की बारक नियार खुता रखना)  16 a) Change and keeping options open. (परिवर्तन और विकट्य खुता रखना)  b) Communicating little of my inner thinking and feelings.  (स्वतंत्र कु में मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं का मंचार करना)  b) Communicating freely my inner thinking and feelings.  (स्वतंत्र कु में मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं का मंचार करना)  b) The factual details available. (संप्यानम किवार अपयोग करना)  b) Using dam, analysis and reason to make decisions.  (निर्णय लेने के लिए सामान्य जान और दृढ़ व		(असमान तर्क और सावधान कदम-दर-चरण विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकालना)	
हं, उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना)         8       a) Avoid making deadlines. (डेडलाइन बनाने से बचें)         b) Sceking a schedule and sticking to it. (एक कार्यक्रम की तलाश और उससे चिपके रहे)         9       a) Talking a while and then thinking to myself about the subject.         (थोडी देर बात करना और फिर अपने विषय के बारे में सोचना)         b) Talking freely for an extended period and thinking to myself at a later time.         (एक विस्तारित अवधि के विषए स्वतंत्र रूप से बात करना और बाद में अपने आप को सोचना)         10       a) Thinking about possibilities. (संभावनाओं के बारे में सोचना)         b) Dealing with actualities. (वास्तविकताओं में निपटना)         11       a) Being thought of as a thinking person.(एक विचारशील ब्यक्ति के रूप में सोचना)         b) Being thought of as a lecling person.(एक पावनाशील ब्यक्ति के रूप में सोचना)         b) Being thought of as a lecling person.(एक पावनाशील ब्यक्ति के रूप में सोचना)         b) Being thought of as a lecling person.(एक पावनाशील ब्यक्ति के रूप में सोचना)         b) Getting the information I need, considering it for a while, and then making a decision.         (निर्णय को में पहले और बाद में नवे समय नक हर संभव प्रकार पुर विचार करना, और फिर एक त्वरित, दूब निर्णय लेना)         13       a) Inner thoughts and feelings others cannot see.         (अंतरिक विचार और भावनाएं अन्य लोग नहीं देख सकते हैं)         b) Activities and occurrences in which others join. (मतिविधियों और घटनाएं जिनमें अन्य के स्वा करना)         14       a) The			
8       a) Avoid making deadlines, (डेडलाइन वनाने से चर्चे)         b) Seeking a schedule and sticking to it. (एक कार्यक्रम की तलाश और उससे चिपके रहे)         9       a) Talking a while and then thinking to myself about the subject. (थोड़ी देर बात करना और फिर अपने विषय के बारे से सोचना)         b) Talking freely for an extended period and thinking to myself at a later time. (एक विस्तारित अविध के लिए स्वतंत्र रूप से बात करना और बाद में अपने आप को सोचना)         10       a) Thinking about possibilities, (संभावनाओं के बारे में सोचना)         b) Dealing with actualities, (लास्तिकताओं से लिएटना)         11       a) Being thought of as a thinking person.(एक विचारशील व्यक्ति के रूप में सोचना)         b) Being thought of as a feeling person.(एक विचारशील व्यक्ति के रूप में सोचना)         12       a) Considering every possible angle for a long time before and after making a decision. (तिर्णव लेने से पहले और बाद में लंबे समय तक हर संभव प्रकार पर विचार करना)         b) Getting the information I need, considering it for a while, and then making a fairly quick, firm decision. (मुंखे जो जानकारी चाहिए, उसे प्राप्त करना, कुछ समय के लिए विचार करना, और फिर एक त्वरित, दृष्ट तिर्णव लेना)         13       a) Inner thoughts and feelings others cannot see. (अंतरिक विचार और भावनाएं अन्य लोग नहीं देख सकते हैं)         b) Activities and occurrences in which others join. (मितिविधयों और घटनाएं जितमें अन्य लोग शामिल होते हैं)         14       a) The abstract or theoretical. (सार या सैद्धांतिक)         b) Helping others explore their feelings. (सूसरों की बावनाके कि निर्णय लोन में मदद करना)		experiences. (मैं जो अनुभव करता हूं और पिछले अनुभवों से लोगों और लोगों के बारे में विश्वास	करत <u>ा</u>
b) Seeking a schedule and sticking to it. (एक कार्यक्रम की तलाश और उससे चिपके रहे)  9 a) Talking a while and then thinking to myself about the subject. (थोड़ी देर बात करना और फिर अपने विषय के बारे में सोचना)  b) Talking freely for an extended period and thinking to myself at a later time. (एक विस्तारित अबधि के लिए स्वतंत्र रूप से बात करना और बाद में अपने आप को सोचना)  10 a) Thinking about possibilities. (संमावनाओं के बारे में सोचना)  b) Dealing with actualities. (बास्तविकताओं से निपटना)  11 a) Being thought of as a thinking person.(एक विचारशील व्यक्ति के रूप में सोचना)  b) Being thought of as a feeling person.(एक मावनाशील व्यक्ति के रूप में सोचना)  b) Being thought of as a feeling person.(एक मावनाशील व्यक्ति के रूप में सोचना)  b) Getting every possible angle for a long time before and after making a decision. (निर्णय लेने से पहले और बाद में लंबे समय तक हर संभव प्रकार पर विचार करना)  b) Getting the information I need, considering it for a while, and then making a fairly quick, firm decision. (मुझे जो जानकारी चाहिए, उसे प्राप्त करना, कुछ समय के लिए विचार करना, और फिर एक त्वरित, बुझ निर्णय लेना)  13 a) Inner thoughts and feelings others cannot see. (आंतरिक विचार और भावनाएं अन्य लोग नहीं देख सकते हैं)  b) Activities and occurrences in which others join. (मितिविधियों और घटनाएं जिनमें अन्य लोग शामिल होते हैं))  14 a) The abstract or theoretical. (सार या मैद्धांतिक)  b) Helping others explore their feelings. (दूसरों की बादनाओं को जानते में मदद करना)  b) Helping others make logical decisions. (दूसरों की बादनाओं को जानते में मदद करना)  b) Helping others make logical decisions. (दूसरों की बादनाओं को जानते में मदद करना)  b) Communicating little of my inner thinking and feelings. (मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं के बारे में थोड़ा संचाद करना)  b) Communicating ittle of my inner thinking and feelings. (मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं के बारे में थोड़ संचाद करना)  b) Communicating freely my inner thinking and feelings. (मेरी अंतरिक सोच और भावनाओं के बारे में विचार करना)  b) The factual details available. (तथ्यासक विवार)  b) Using dat		हूं, उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना)	
9 a) Talking a while and then thinking to myself about the subject. (शोडी देर बात करना और फिर अपने विषय के बारे में सोचना) b) Talking freely for an extended period and thinking to myself at a later time. (एक विस्तारित अवधि के लिए स्वतंत्र रूप से बात करना और बाद में अपने आप को सोचना) 10 a) Thinking about possibilities. (संमावनाओं के बारे में सोचना) b) Dealing with actualities. (वास्तविकताओं से निपटना) 11 a) Being thought of as a thinking person.(एक विचारशील व्यक्ति के रूप में सोचना) b) Being thought of as a feeling person.(एक मावनाशील व्यक्ति के रूप में सोचना) b) Being thought of as a feeling person.(एक मावनाशील व्यक्ति के रूप में सोचना) b) Gotting every possible angle for a long time before and after making a decision. (निर्णय लेने से पहले और बाद में लंबे समय तक हर संभव प्रकार पर विचार करना) b) Getting the information I need, considering it for a while, and then making a fairly quick, firm decision. (मुझे जो जानकारी चाहिए, उसे प्राप्त करना, कुछ समय के लिए विचार करना, और फिर एक व्यरित, दृढ निर्णय लेना) 13 a) Inner thoughts and feelings others cannot see. (आंतरिक विचार और भावनाएं अन्य बोग नहीं देख सकते हैं) b) Activities and occurrences in which others join. (मितिविधियों और घटनाएं जिनमें अन्य लोग आमिल होते हैं) 14 a) The abstract or theoretical. (सार या मैद्धातिक), b) The concrete or real. (ठोस या चास्तविक) 15 a) Helping others explore their feelings. (दूसरों की बादनाओं को जानते में मदद करना) b) Helping others make logical decisions. (दूसरों की बादनाओं को जानते में मदद करना) b) Helping others make logical decisions. (भारतिक विकट्ट यूला रखना) a) Predictability and knowing in advance. (भविष्यवाणी और अग्रिम में जानना) 16 a) Change and keeping options open. (पिरवर्तन और बिकट्ट यूला रखना) b) Communicating little of my inner thinking and feelings. (मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं के बारे में थोडा संवाद करना) b) Communicating freely my inner thinking and feelings. (मेरी अंतरिक सोच और भावनाओं के बारे में शोडा संवाद करना) b) The factual details available. (तथ्यासक विवरण उपलब्ध है) 19 a) Using data, analysis and reason to make	8	a) Avoid making deadlines. (डेडलाइन बनाने से बचें)	
9 a) Talking a while and then thinking to myself about the subject. (शोडी देर बात करना और फिर अपने विषय के बारे में सोचना) b) Talking freely for an extended period and thinking to myself at a later time. (एक विस्तारित अविधे के लिए स्वतंत्र रूप से बात करना और बाद में अपने आप को सोचना) 10 a) Thinking about possibilities. (संमावनाओं के बारे में सोचना) b) Dealing with actualities. (वास्तविकताओं से निपटना) 11 a) Being thought of as a thinking person.(एक विचारशील व्यक्ति के रूप में सोचना) b) Being thought of as a feeling person.(एक मावनाशील व्यक्ति के रूप में सोचना) b) Being thought of as a feeling person.(एक मावनाशील व्यक्ति के रूप में सोचना) b) Gotting every possible angle for a long time before and after making a decision. (निर्णय लेने से पहले और बाद में लंबे समय तक हर संभव प्रकार पर विचार करना) b) Getting the information I need, considering it for a while, and then making a fairly quick, firm decision. (मुझे जो जानकारी चाहिए, उसे प्राप्त करना, कुछ समय के लिए विचार करना, और फिर एक त्वरित, दृढ निर्णय लेना) 13 a) Inner thoughts and feelings others cannot see. (आंतरिक विचार और भावनाएं अन्य बोग नहीं देख सकते हैं) b) Activities and occurrences in which others join. (मितिविधियों और घटनाए जिनमें अन्य लोग आमिल होते हैं) 14 a) The abstract or theoretical. (सार या मैद्धातिक) b) Helping others explore their feelings. (दूसरों की भावनाओं को जानने में मदद करना) b) Helping others make logical decisions. (दूसरों की बावनाओं को जानने में मदद करना) b) Helping others make logical decisions. (दूसरों की बावनाओं को जानने में मदद करना) b) Communicating little of my inner thinking and feelings. (मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं के बारे में थोडा संवाद करना) b) Communicating freely my inner thinking and feelings. (मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं के बारे में थोडा संवाद करना) b) Communicating streety my inner thinking and feelings. (मेरी अंतरिक सोच और भावनाओं के बारे में सोच करना) b) The factual details available. (तथ्यासक विवरण उपलब्ध है) a) Using data, analysis and reason to make decisions. (निर्णय लेने के लिए डेट्स. निर्हेयण और कारण का उपयोग करना)		b) Seeking a schedule and sticking to it. (एक कार्यक्रम की तलाश और उससे चिपके रहे)	
b) Talking freely for an extended period and thinking to myself at a later time. (एक विस्तारित अवधि के लिए स्वतंत्र रूप से बात करना और बाद में अपने आप को सोचना)  a) Thinking about possibilities. (संभावनाओं के बारे में सोचना)  b) Dealing with actualities. (वास्तविकताओं से निपटना)  d) Being thought of as a thinking person.(एक विचारशील व्यक्ति के रूप में सोचना)  b) Being thought of as a feeling person.(एक विचारशील व्यक्ति के रूप में सोचना)  b) Being thought of as a feeling person.(एक विचारशील व्यक्ति के रूप में सोचना)  b) Gonsidering every possible angle for a long time before and after making a decision. (निर्णय लेने से पहले और बाद में लंबे समय तक हर सभव प्रकार पर विचार करना)  b) Getting the information I need, considering it for a while, and then making a fairly quick, firm decision. (मुझे जो जानकारी चाहिए, उसे प्राप्त करना, कुछ समय के लिए विचार करना, और फिर एक त्वरित, वृढ निर्णय लेना)  a) Inner thoughts and feelings others cannot see. (आंतरिक विचार और भावनाएं अन्य लोग नहीं देख सकते हैं)  b) Activities and occurrences in which others join. (गितिविधियाँ और घटनाएं जिनमें अन्य लोग शामिल होते हैं))  14 a) The abstract or theoretical. (सार या सेद्धांतिक)  b) The concrete or real. (होस या वास्तविक)  15 a) Helping others explore their feelings. (दूसरों की भावनाओं को जानने में मदद करना)  b) Helping others make logical decisions. (दूसरों की किलल पूजा रखना)  a) Change and keeping options open. (परिवर्तन और विकल्प पूजा रखना)  a) Predictability and knowing in advance. (भवित्यवाणी और अग्निम में जानना)  a) Communicating little of my inner thinking and feelings. (स्वतंत्र रूप से मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं के बारे में थोड़ा संचाद करना)  b) Communicating freely my inner thinking and feelings. (स्वतंत्र रूप से मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं का संचार करना)  b) The factual details available. (तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध है)  a) Using data, analysis and reason to make decisions. (निर्णय लेने के लिए डेटा, विश्लेपण और कारण का उपयोग करना)  b) Using data, analysis and reason to make decisions. (निर्णय लेने के लिए डेटा, विश्लेपण और कारण का उपयोग	9	a) Talking a while and then thinking to myself about the subject.	
(एक विस्तारित अविधि के लिए स्वतंत्र रूप से बात करना और बाद में अपने आप को सोचना)  a) Thinking about possibilities. (संभावनाओं के बारे में सोचना) b) Dealing with actualities. (वास्तविकताओं से निपटना)  11 a) Being thought of as a thinking person.(एक विचारशील व्यक्ति के रूप में सोचना) b) Being thought of as a feeling person.(एक मावनाशील व्यक्ति के रूप में सोचना)  12 a) Considering every possible angle for a long time before and after making a decision. (निर्णय लेने से पहले और बाद में लंबे समय तक हर संभव प्रकार पर विचार करना) b) Getting the information I need, considering it for a while, and then making a fairly quick, firm decision. (मुझे जो जानकारी चाहिए, उसे प्राप्त करना, कुछ समय के लिए विचार करना, और फिर एक त्वरित, दूढ निर्णय लेना)  13 a) Inner thoughts and feelings others cannot see. (आंतरिक विचार और मावनाएं अन्य लोग नहीं देख सकते हैं) b) Activities and occurrences in which others join. (गतिविधियाँ और घटनाएं जिनमें अन्य लोग शामिल होते हैं)  14 a) The abstract or theoretical. (सार बा सैद्धातिक) b) The concrete or real. (होस या वास्तविक) b) Helping others explore their feelings. (दूसरों की भावनाओं को जानने में मदद करना) b) Helping others make logical decisions. (दूसरों की तार्किक लिण लेने में मदद करना) a) Predictability and knowing in advance, (भिविय्वाणी और अग्निम में जानना) a) Communicating little of my inner thinking and feelings. (सेरी आंतरिक सोच और भावनाओं के बारे में थोड़ा संचाद करना) b) Communicating freely my inner thinking and feelings. (स्वतंत्र रूप से मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं का संचार करना) b) The factual details available. (तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध है) a) Using common sense and conviction to make decisions. (निर्णय लेने के लिए डेटा, विश्लेपण और कारणोग करना) b) Using data, analysis and reason to make decisions. (निर्णय लेने के लिए हेटा, विश्लेपण और कारणोग करना)		(थोड़ी देर बात करना और फिर अपने विषय के बारे में सोचना)	
10   a) Thinking about possibilities. (संभावनाओं के बारे में सोचना)     b) Dealing with actualities. (वास्तविकताओं से निपटना)     d) Being thought of as a thinking person.(एक विचारशील व्यक्ति के रूप में सोचना)     b) Being thought of as a feeling person.(एक भावनाशील व्यक्ति के रूप में सोचना)     d) Being thought of as a feeling person.(एक भावनाशील व्यक्ति के रूप में सोचना)     d) Considering every possible angle for a long time before and after making a decision. (निर्णय लेने से पहले और बाद में लंबे समय तक हर संभव प्रकार पर विचार करना)     d) Getting the information I need, considering it for a while, and then making a fairly quick, firm decision. (मुझे जो जानकारी चाहिए, उसे प्राप्त करना, कुछ समय के लिए विचार करना, और फिर एक त्वरित, वृढ निर्णय लेना)     13   a) Inner thoughts and feelings others cannot see. (आंतरिक विचार और भावनाएं अन्य लोग नहीं देख सकते हैं)     b) Activities and occurrences in which others join. (गितविधियाँ और घटनाएं जिनमें अन्य लोग शामिल होते हैं)     14   a) The abstract or theoretical. (सार या सैद्धांतिक)     b) The concrete or real. (ठोन या वास्तविक)     b) Helping others explore their feelings. (दूसरों की पावनाओं को जानने में मदद करना)     d) Predictability and knowing in advance. (भिविष्यवाणी और अग्रिम में जानना)     d) Predictability and knowing in advance. (भिविष्यवाणी और अग्रिम में जानना)     d) Predictability and knowing in advance. (भिविष्यवाणी और अग्रिम में जानना)     d) Possible views of the whole. (संपूर्ण के संभावित विचार)     b) Using common sense and conviction to make decisions. (निर्णय लेने के लिए सामान्य ज्ञान और द्विवास का उपयोग करना)     b) Using data, analysis and reason to make decisions. (निर्णय लेने के लिए सामान्य ज्ञान और दृढ विश्वास का उपयोग करना)     b) Using data, analysis and reason to make decisions. (निर्णय लेने के लिए की कि कि स्वाप्त की उपयोग करना)		b) Talking freely for an extended period and thinking to myself at a later time.	
b) Dealing with actualities. (वास्तविकताओं से निपटना)  11 a) Being thought of as a thinking person.(एक विचारशील व्यक्ति के रूप में सोचना)  12 a) Considering every possible angle for a long time before and after making a decision. (निर्णय लेने से पहले और बाद में लंबे समय तक हर संभव प्रकार पर विचार करना)  b) Getting the information I need, considering it for a while, and then making a fairly quick, firm decision. (मुझे जो जानकारी चाहिए, उसे प्राप्त करना, कुछ समय के लिए विचार करना, और फिर एक त्वरित, दूढ निर्णय लेना)  13 a) Inner thoughts and feelings others cannot see. (आंतरिक विचार और भावनाएं अन्य लोग नहीं देख सकते हैं)  b) Activities and occurrences in which others join. (मितविधियाँ और घटनाएं जितमें अन्य लोग शामिल होते हैं)  14 a) The abstract or theoretical. (सार वा सैद्धांतिक),  b) The concrete or real. (छोस या वास्तविक),  b) Helping others explore their feelings. (दूसरों की भावनाओं को जानने में मदद करना)  15 a) Helping others make logical decisions. (दूसरों की वार्किक निर्णय लेने में मदद करना)  16 a) Change and keeping options open. (परिवर्तन और विकल्प खूला रखना)  a) Predictability and knowing in advance, (भिदाखनाणी और अधिम में जानना)  17 a) Communicating little of my inner thinking and feelings. (मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं के बारे में थोड़ा संवाद करना)  b) Communicating freely my inner thinking and feelings. (मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं के बारे में थोड़ा संवाद करना)  b) Communicating freely my inner thinking and feelings. (मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं को स्वार में योड़ा संवाद करना)  b) The factual details available. (तथ्यात्मक विचरण उपलब्ध है)  19 a) Using common sense and conviction to make decisions. (निर्णय लेने के लिए सामान्य ज्ञा और कारण का उपयोग करना)  b) Using data, analysis and reason to make decisions. (निर्णय लेने के लिए डेटा, विक्षेयण और कारण का उपयोग करना)		(एक विस्तारित अवधि के लिए स्वतंत्र रूप से बात करना और बाद में अपने आप को सोचना)	
b) Dealing with actualities. (वास्तविकताओं से निपटना)  a) Being thought of as a thinking person.(एक विचारशील व्यक्ति के रूप में सोचना)  b) Being thought of as a feeling person.(एक भावनाशील व्यक्ति के रूप में सोचना)  12 a) Considering every possible angle for a long time before and after making a decision. (निर्णय लेने से पहले और बाद में लंबे समय तक हर संभव प्रकार पर विचार करना)  b) Getting the information I need, considering it for a while, and then making a fairly quick, firm decision. (मुझे जो जानकारी चाहिए, उसे प्राप्त करना, कुछ समय के लिए विचार करना, और फिर एक त्वरित, दृढ निर्णय लेना)  13 a) Inner thoughts and feelings others cannot see. (आंतरिक विचार और भावनाएं अन्य लोग नहीं देख सकते हैं)  b) Activities and occurrences in which others join. (मितविधियाँ और घटनाएं जिनमें अन्य लोग शामिल होते हैं)  14 a) The abstract or theoretical. (सार वा सैद्धांतिक)  b) The concrete or real. (दोस या वास्तविक)  b) Helping others explore their feelings. (दूसरों की भावनाओं को जानने में मदद करना)  15 a) Helping others make logical decisions. (दूसरों की नार्किक निर्णय लेने में मदद करना)  16 a) Change and keeping options open. (पित्तति और विकल्प खुला रखना)  a) Predictability and knowing in advance. (भविष्यवाणी और अग्रिम में जानना)  17 a) Communicating little of my inner thinking and feelings. (मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं के बारे में थोड़ा संवाद करना)  b) Communicating freely my inner thinking and feelings. (स्वतंत्र रूप से मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं का संचार करना)  b) The factual details available. (तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध है)  a) Using common sense and conviction to make decisions. (निर्णय लेने के लिए सामान्य ज्ञान और दृढ विश्वास का उपयोग करना)  b) Using data, analysis and reason to make decisions. (निर्णय लेने के लिए बामान्य ज्ञान और दृढ विश्वास का उपयोग करना)	10	a) Thinking about possibilities. (संभावनाओं के बारे में सोचना)	
11       a) Being thought of as a thinking person.(एक विचारशील व्यक्ति के रूप में सोचना)         b) Being thought of as a feeling person.(एक भावनाशील व्यक्ति के रूप में सोचना)         12       a) Considering every possible angle for a long time before and after making a decision. (निर्णय लेन से पहले और बाद में लंबे समय तक हर संभव प्रकार पर विचार करना)         b) Getting the information I need, considering it for a while, and then making a fairly quick, firm decision. (मुझे जो जानकारी चाहिए, उसे प्राप्त करना, कुछ समय के लिए विचार करना, और फिर एक त्वरित, दृढ निर्णय लेना)         13       a) Inner thoughts and feelings others cannot see. (आंतरिक विचार और भावनाएं अन्य लोग नहीं देख सकते हैं)         b) Activities and occurrences in which others join. (गतिविधियाँ और घटनाएं जिनमें अन्य लोग शामिल होते हैं)         14       a) The abstract or theoretical. (सार या सैद्धांतिक)         b) The concrete or real. (ठोस या वास्तविक)         b) Helping others explore their feelings. (दूसरों की भावनाओं को जानने में मदद करना)         b) Helping others make logical decisions. (दूसरों को साबनाओं को जानने में मदद करना)         a) Change and keeping options open. (परिवर्तन और विकल्प खुला रखना)         a) Predictability and knowing in advance. (भविष्यवाणी और अग्रिम में जानना)         17       a) Communicating little of my inner thinking and feelings. (सेरी आंतरिक सोच और भावनाओं को बारे में थोडा संबाद करना)         b) Communicating freely my inner thinking and feelings. (स्वतंत्र रूप से मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं का संचार करना)         b) The factual details available. (तृष्यासक विवरण उपलब्ध है)			
b) Being thought of as a feeling person.(एक भावनाशील व्यक्ति के रूप में सोचना)  12 a) Considering every possible angle for a long time before and after making a decision. (निर्णय लेन से पहले और बाद में लंबे समय तक हर संभव प्रकार पर विचार करना)  b) Getting the information I need, considering it for a while, and then making a fairly quick, firm decision. (मुझे जो जानकारी चाहिए, उसे प्राप्त करना, कुछ समय के लिए विचार करना, और फिर एक त्वरित, दृढ़ निर्णय लेना)  13 a) Inner thoughts and feelings others cannot see. (आंतरिक विचार और भावनाएं अन्य लोग नहीं देख सकते हैं)  b) Activities and occurrences in which others join. (गतिविधियाँ और घटनाएं जिनमें अन्य लोग शामिल होते हैं।)  14 a) The abstract or theoretical. (सार या सैद्धातिक)  b) The concrete or real. (ठोस या वास्तविक)  15 a) Helping others explore their feelings. (दूसरों की भावनाओं को जानने में मदद करना)  b) Helping others make logical decisions. (दूसरों को सिक्त निर्णय लेने में मदद करना)  16 a) Change and keeping options open. (परिवर्तन और विकल्प खुला रखना)  a) Predictability and knowing in advance. (भविष्यवाणी और अग्रिम में जानना)  17 a) Communicating little of my inner thinking and feelings. (सेरी आंतरिक सोच और भावनाओं के बारे में थोड़ा संवाद करना)  b) Communicating freely my inner thinking and feelings. (स्वतंत्र रूप से मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं का संचार करना)  b) Communicating freely my inner thinking and feelings. (स्वतंत्र रूप से मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं का संचार करना)  b) The factual details available. (तिष्यासक विवरण उपलब्ध है)  a) Using common sense and conviction to make decisions. (निर्णय लेने के लिए सामान्य ज्ञान और दृढ विश्वास का उपयोग करना)  b) Using data, analysis and reason to make decisions. (निर्णय लेने के लिए इंटा, विश्लेयण और कारण का उपयोग करना)	11	, ,	
12 a) Considering every possible angle for a long time before and after making a decision. (निर्णय लेने से पृहले और बाद में लंबे समय तक हर संभव प्रकार पर विचार करना) b) Getting the information I need, considering it for a while, and then making a fairly quick, firm decision. (मुझे जो जानकारी चाहिए, उसे प्राप्त करना, कुछ समय के लिए विचार करना, और फिर एक त्वरित, दृढ़ निर्णय लेना)  13 a) Inner thoughts and feelings others cannot see. (आंतरिक विचार और भावनाएं अन्य लोग नहीं देख सकते हैं) b) Activities and occurrences in which others join. (गतिविधियों और घटनाएं जिनमें अन्य लोग शामिल होते हैं)) a) The abstract or theoretical. (सार या मैद्धांतिक) b) The concrete or real. (होस या वास्तविक) b) Helping others explore their feelings. (दूसरों की भावनाओं को जानने में मदद करना) d) Predictability and knowing in advance. (प्रविच्यवाणी और अग्रिम में जानना) a) Change and keeping options open. (परिवर्तन और विकल्प खुला रखना) d) Predictability and knowing in advance. (भविच्यवाणी और अग्रिम में जानना) b) Communicating little of my inner thinking and feelings. (मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं के बारे में थोड़ा संवाद करना) b) Communicating freely my inner thinking and feelings. (स्वतंत्र रूप से मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं का संचार करना) b) The factual details available. (तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध है) a) Using common sense and conviction to make decisions. (निर्णय लेने के लिए सामान्य ज्ञान और दृढ़ विश्वास का उपयोग करना) b) Using data, analysis and reason to make decisions. (निर्णय लेने के लिए डेटा, विश्लेषण और कारण का उपयोग करना)			
(निर्णय लेने से पहले और बाद में लंबे समय तक हर संभव प्रकार पर विचार करना) b) Getting the information I need, considering it for a while, and then making a fairly quick, firm decision. (मुझे जो जानकारी चाहिए, उसे प्राप्त करना, कुछ समय के लिए विचार करना, और फिर एक त्वरित, दृढ़ निर्णय लेना)  13 a) Inner thoughts and feelings others cannot see. (आंतरिक विचार और भावनाएं अन्य लोग नहीं देख सकते हैं) b) Activities and occurrences in which others join. (मितविधियाँ और घटनाएं जिनमें अन्य लोग शामिल होते हैं।)  14 a) The abstract or theoretical. (सार या सैद्धांतिक) b) The concrete or real. (छोस या वास्तविक) b) Helping others explore their feelings. (दूसरों की भावनाओं को जानने में मदद करना) b) Helping others make logical decisions. (दूसरों को तार्किक निर्णय लेने में मदद करना) a) Change and keeping options open. (परिवर्तन और विकल्प खुला रखना) a) Predictability and knowing in advance. (भविष्यवाणी और अग्रिम में जानना) a) Communicating little of my inner thinking and feelings. (मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं के बारे में थोड़ा संवाद करना) b) Communicating freely my inner thinking and feelings. (स्वतंत्र रूप से मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं का संचार करना) b) The factual details available. (तप्यात्मक विवरण उपलब्ध है) a) Using common sense and conviction to make decisions. (निर्णय लेने के लिए सामान्य ज्ञान और दृढ़ विश्वास का उपयोग करना) b) Using data, analysis and reason to make decisions. (निर्णय लेने के लिए डेटा, विक्षेपण और कारण का उपयोग करना)	12		
b) Getting the information I need, considering it for a while, and then making a fairly quick, firm decision. (मुझे जो जानकारी चाहिए, उसे प्राप्त करना, कुछ समय के लिए विचार करना, और फिर एक त्वरित, दृढ़ निर्णय लेना)  13 a) Inner thoughts and feelings others cannot see. (आंतरिक विचार और भावनाएं अन्य लोग नहीं देख सकते हैं)  b) Activities and occurrences in which others join. (गतिविधियाँ और घटनाएं जिनमें अन्य लोग शामिल होते हैं))  14 a) The abstract or theoretical. (सार या सैद्धांतिक)  b) The concrete or real. (ठोस या वास्तविक)  15 a) Helping others explore their feelings. (दूसरों की भावनाओं को जानने में मदद करना)  b) Helping others make logical decisions. (दूसरों को नार्किक निर्णय लेने में मदद करना)  a) Change and keeping options open. (परिवर्तन और विकल्प खुला रखना)  o) Predictability and knowing in advance. (भविष्यवाणी और अग्रिम में जानना)  17 a) Communicating little of my inner thinking and feelings. (मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं के बारे में थोड़ा संवाद करना)  b) Communicating freely my inner thinking and feelings. (स्वतंत्र रूप से मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं का संचार करना)  18 a) Possible views of the whole. (संपूर्ण के संभावित विचार)  b) The factual details available. (तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध है)  19 a) Using common sense and conviction to make decisions. (निर्णय लेने के लिए सामान्य ज्ञान और दृढ़ विश्वास का उपयोग करना)  b) Using data, analysis and reason to make decisions. (निर्णय लेने के लिए डेटा, विश्लेषण और कारण का उपयोग करना)			
firm decision. (मुझे जो जानकारी चाहिए, उसे प्राप्त करना, कुछ समय के लिए विचार करना, और फिर एक त्वरित, दृढ़ निर्णय लेना)  a) Inner thoughts and feelings others cannot see. (आंतरिक विचार और भावनाएं अन्य लोग नहीं देख सकते हैं)  b) Activities and occurrences in which others join. (मितविधियाँ और घटनाएं जिनमें अन्य लोग शामिल होते हैं।)  14 a) The abstract or theoretical. (सार या सैद्धांतिक)  b) The concrete or real. (होस या वास्तविक)  15 a) Helping others explore their feelings. (दूसरों को भावनाओं को जानने में मदद करना)  b) Helping others make logical decisions. (दूसरों को तार्किक निर्णय लेने में मदद करना)  a) Change and keeping options open. (पिरवर्तन और विकल्प खुला रखना)  a) Predictability and knowing in advance. (भविष्यवाणी और अग्रिम में जानना)  17 a) Communicating little of my inner thinking and feelings. (मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं के बारे में थोड़ा संवाद करना)  b) Communicating freely my inner thinking and feelings. (स्वतंत्र रूप से मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं का संचार करना)  18 a) Possible views of the whole. (संपूर्ण के संभावित विचार)  b) The factual details available. (तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध है)  19 a) Using common sense and conviction to make decisions. (निर्णय लेने के लिए सामान्य ज्ञान और दृढ़ विश्वास का उपयोग करना)  b) Using data, analysis and reason to make decisions. (निर्णय लेने के लिए डेटा, विश्लेषण और कारण का उपयोग करना)			ck.
एक त्वरित, दृढ़ निर्णय लेना)  a) Inner thoughts and feelings others cannot see. (अंतरिक विचार और भावनाएं अन्य लोग नहीं देख सकते हैं)  b) Activities and occurrences in which others join. (गतिविधियाँ और घटनाएं जिनमें अन्य लोग शामिल होते हैं))  14 a) The abstract or theoretical. (सार या सैद्धांतिक) b) The concrete or real. (ठोस या वास्तविक)  15 a) Helping others explore their feelings. (दूसरों की भावनाओं को जानने में मदद करना) b) Helping others make logical decisions. (दूसरों को नार्किक निर्णय लेने में मदद करना) a) Change and keeping options open. (परिवर्तन और विकल्प खुला रखना) a) Predictability and knowing in advance. (भविष्यवाणी और अग्रिम में जानना)  17 a) Communicating little of my inner thinking and feelings. (मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं के बारे में थोड़ा संबाद करना) b) Communicating freely my inner thinking and feelings. (स्वतंत्र रूप से मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं का संचार करना)  18 a) Possible views of the whole. (संपूर्ण के संभावित विचार) b) The factual details available. (तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध है)  19 a) Using common sense and conviction to make decisions. (निर्णय लेने के लिए सामान्य ज्ञान और दृढ़ विश्वास का उपयोग करना) b) Using data, analysis and reason to make decisions. (निर्णय लेने के लिए डेटा, विश्लेषण और कारण का उपयोग करना)			
13       a) Inner thoughts and feelings others cannot see.         (अंतिरिक विचार और भावनाएं अन्य लोग नहीं देख सकते हैं)         b) Activities and occurrences in which others join. (गितिविधियाँ और घटनाएं जिनमें अन्य लोग शामिल होते हैं))         14       a) The abstract or theoretical. (सार या सैद्धांतिक)         b) The concrete or real. (ठोस या वास्तिक)         b) Helping others explore their feelings. (दूसरों की मावनाओं को जानने में मदद करना)         b) Helping others make logical decisions. (दूसरों को नार्किक निर्णय लेने में मदद करना)         a) Change and keeping options open. (परिवर्तन और विकल्प खुला रखना)         a) Predictability and knowing in advance. (भविष्यवाणी और अग्रम में जानना)         17       a) Communicating little of my inner thinking and feelings.			
(आंतरिक विचार और भावनाएं अन्य लोग नहीं देख सकते हैं) b) Activities and occurrences in which others join. (गतिविधियाँ और घटनाएं जिनमें अन्य लोग शामिल होते हैं।)  14 a) The abstract or theoretical. (सार या सैद्धांतिक) b) The concrete or real. (ठोस या वास्तविक)  15 a) Helping others explore their feelings. (दूसरों की भावनाओं को जानने में मदद करना) b) Helping others make logical decisions. (दूसरों को तार्किक निर्णय लेने में मदद करना) a) Change and keeping options open. (परिवर्तन और विकल्प खुला रखना) a) Predictability and knowing in advance. (भविष्यवाणी और अग्रिम में जानना)  17 a) Communicating little of my inner thinking and feelings. (मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं के बारे में थोड़ा संवाद करना) b) Communicating freely my inner thinking and feelings. (स्वतंत्र रूप से मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं का संचार करना)  18 a) Possible views of the whole. (संपूर्ण के संभावित विचार) b) The factual details available. (तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध है)  19 a) Using common sense and conviction to make decisions. (निर्णय लेने के लिए सामान्य ज्ञान और दृढ़ विश्वास का उपयोग करना) b) Using data, analysis and reason to make decisions. (निर्णय लेने के लिए डेटा, विश्लेषण और कारण का उपयोग करना)	13		
b) Activities and occurrences in which others join. (गतिविधियाँ और घटनाएं जिनमें अन्य लोग शामिल होते हैं।)  14 a) The abstract or theoretical. (सार या सैद्धांतिक) b) The concrete or real. (ठोस या वास्तविक)  15 a) Helping others explore their feelings. (दूसरों की भावनाओं को जानने में मदद करना) b) Helping others make logical decisions. (दूसरों को तार्किक निर्णय लेने में मदद करना) a) Change and keeping options open. (परिवर्तन और विकल्प खुला रखना) a) Predictability and knowing in advance. (भविष्यवाणी और अग्रिम में जानना) a) Communicating little of my inner thinking and feelings. (मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं के बारे में थोड़ा संवाद करना) b) Communicating freely my inner thinking and feelings. (स्वतंत्र रूप से मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं का संचार करना)  18 a) Possible views of the whole. (संपूर्ण के संभावित विचार) b) The factual details available. (तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध है) a) Using common sense and conviction to make decisions. (निर्णय लेने के लिए सामान्य ज्ञान और दृढ़ विश्वास का उपयोग करना) b) Using data, analysis and reason to make decisions. (निर्णय लेने के लिए डेटा, विश्लेषण और कारण का उपयोग करना)			
शामिल होते हैं।)  14 a) The abstract or theoretical. (सार या सैद्धांतिक) b) The concrete or real. (ठोस या वास्तविक)  15 a) Helping others explore their feelings. (दूसरों की भावनाओं को जानने में मदद करना) b) Helping others make logical decisions. (दूसरों को तार्किक निर्णय लेने में मदद करना)  16 a) Change and keeping options open. (परिवर्तन और विकल्प खुला रखना) a) Predictability and knowing in advance. (भविष्यवाणी और अग्रिम में जानना)  17 a) Communicating little of my inner thinking and feelings. (मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं के बारे में थोड़ा संवाद करना) b) Communicating freely my inner thinking and feelings. (स्वतंत्र रूप से मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं का संचार करना)  18 a) Possible views of the whole. (संपूर्ण के संभावित विचार) b) The factual details available. (तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध है)  19 a) Using common sense and conviction to make decisions. (निर्णय लेने के लिए सामान्य ज्ञान और दृढ़ विश्वास का उपयोग करना) b) Using data, analysis and reason to make decisions. (निर्णय लेने के लिए डेटा, विश्लेषण और कारण का उपयोग करना)			ग
14       a) The abstract or theoretical. (सार या सैद्धांतिक)         b) The concrete or real. (ठोस या वास्तविक)         15       a) Helping others explore their feelings. (दूसरों की भावनाओं को जानने में मदद करना)         b) Helping others make logical decisions. (दूसरों को तार्किक निर्णय लेने में मदद करना)         16       a) Change and keeping options open. (पिरवर्तन और विकल्प खुला रखना)         a) Predictability and knowing in advance. (भविष्यवाणी और अग्रिम में जानना)         17       a) Communicating little of my inner thinking and feelings.			`
b) The concrete or real. (ठोस या वास्तविक)  a) Helping others explore their feelings. (दूसरों की भावनाओं को जानने में मदद करना)  b) Helping others make logical decisions. (दूसरों को तार्किक निर्णय लेने में मदद करना)  a) Change and keeping options open. (परिवर्तन और विकल्प खुला रखना)  a) Predictability and knowing in advance. (भविष्यवाणी और अग्रिम में जानना)  a) Communicating little of my inner thinking and feelings.  (मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं के बारे में थोड़ा संवाद करना)  b) Communicating freely my inner thinking and feelings.  (स्वतंत्र रूप से मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं का संचार करना)  a) Possible views of the whole. (संपूर्ण के संभावित विचार)  b) The factual details available. (तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध है)  a) Using common sense and conviction to make decisions.  (निर्णय लेने के लिए सामान्य ज्ञान और दृढ़ विश्वास का उपयोग करना)  b) Using data, analysis and reason to make decisions.  (निर्णय लेने के लिए डेटा, विश्लेषण और कारण का उपयोग करना)	14		
b) Helping others make logical decisions. (दूसरों को तार्किक निर्णय लेने में मदद करना)  a) Change and keeping options open. (परिवर्तन और विकल्प खुला रखना)  a) Predictability and knowing in advance. (भविष्यवाणी और अग्रिम में जानना)  17 a) Communicating little of my inner thinking and feelings.		b) The concrete or real. (ठोस या वास्तविक)	
16a) Change and keeping options open. (परिवर्तन और विकल्प खुला रखना)a) Predictability and knowing in advance. (भविष्यवाणी और अग्रिम में जानना)17a) Communicating little of my inner thinking and feelings. (मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं के बारे में थोड़ा संवाद करना)b) Communicating freely my inner thinking and feelings. (स्वतंत्र रूप से मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं का संचार करना)18a) Possible views of the whole. (संपूर्ण के संभावित विचार)b) The factual details available. (तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध है)19a) Using common sense and conviction to make decisions. (निर्णय लेने के लिए सामान्य ज्ञान और दृढ़ विश्वास का उपयोग करना)b) Using data, analysis and reason to make decisions. (निर्णय लेने के लिए डेटा, विश्लेषण और कारण का उपयोग करना)	15	a) Helping others explore their feelings. (दूसरों की भावनाओं को जानने में मदद करना)	
16a) Change and keeping options open. (परिवर्तन और विकल्प खुला रखना)a) Predictability and knowing in advance. (भविष्यवाणी और अग्रिम में जानना)17a) Communicating little of my inner thinking and feelings. (मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं के बारे में थोड़ा संवाद करना)b) Communicating freely my inner thinking and feelings. (स्वतंत्र रूप से मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं का संचार करना)18a) Possible views of the whole. (संपूर्ण के संभावित विचार)b) The factual details available. (तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध है)19a) Using common sense and conviction to make decisions. (निर्णय लेने के लिए सामान्य ज्ञान और दृढ़ विश्वास का उपयोग करना)b) Using data, analysis and reason to make decisions. (निर्णय लेने के लिए डेटा, विश्लेषण और कारण का उपयोग करना)		b) Helping others make logical decisions. (दूसरों को तार्किक निर्णय लेने में मदद करना)	
17       a) Communicating little of my inner thinking and feelings. <ul> <li>(मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं के बारे में थोड़ा संवाद करना)</li> <li>b) Communicating freely my inner thinking and feelings.                 (स्वतंत्र रूप से मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं का संचार करना)</li> </ul> 18     a) Possible views of the whole. (संपूर्ण के संभावित विचार)           b) The factual details available. (तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध है)           19         a) Using common sense and conviction to make decisions.                  (निर्णय लेने के लिए सामान्य ज्ञान और दृढ़ विश्वास का उपयोग करना)           b) Using data, analysis and reason to make decisions.                  (निर्णय लेने के लिए डेटा, विश्लेषण और कारण का उपयोग करना)	16		
17       a) Communicating little of my inner thinking and feelings. <ul> <li>(मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं के बारे में थोड़ा संवाद करना)</li> <li>b) Communicating freely my inner thinking and feelings.                 (स्वतंत्र रूप से मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं का संचार करना)</li> </ul> 18     a) Possible views of the whole. (संपूर्ण के संभावित विचार)           b) The factual details available. (तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध है)           19         a) Using common sense and conviction to make decisions.                  (निर्णय लेने के लिए सामान्य ज्ञान और दृढ़ विश्वास का उपयोग करना)           b) Using data, analysis and reason to make decisions.                  (निर्णय लेने के लिए डेटा, विश्लेषण और कारण का उपयोग करना)		a) Predictability and knowing in advance. (भविष्यवाणी और अग्रिम में जानना)	
b) Communicating freely my inner thinking and feelings.  (स्वतंत्र रूप से मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं का संचार करना)  a) Possible views of the whole. (संपूर्ण के संभावित विचार)  b) The factual details available. (तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध है)  19 a) Using common sense and conviction to make decisions.  (निर्णय लेने के लिए सामान्य ज्ञान और दृढ़ विश्वास का उपयोग करना)  b) Using data, analysis and reason to make decisions.  (निर्णय लेने के लिए डेटा, विश्लेषण और कारण का उपयोग करना)	17		
(स्वतंत्र रूप से मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं का संचार करना)18a) Possible views of the whole. (संपूर्ण के संभावित विचार)b) The factual details available. (तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध है)19a) Using common sense and conviction to make decisions. (निर्णय लेने के लिए सामान्य ज्ञान और दृढ़ विश्वास का उपयोग करना)b) Using data, analysis and reason to make decisions. (निर्णय लेने के लिए डेटा, विश्लेषण और कारण का उपयोग करना)		(मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं के बारे में थोड़ा संवाद करना)	
18       a) Possible views of the whole. (संपूर्ण के संभावित विचार)         b) The factual details available. (तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध है)         19       a) Using common sense and conviction to make decisions.		b) Communicating freely my inner thinking and feelings.	
b) The factual details available. (तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध है)  19 a) Using common sense and conviction to make decisions.		(स्वतंत्र रूप से मेरी आंतरिक सोच और भावनाओं का संचार करना)	
b) The factual details available. (तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध है)  19 a) Using common sense and conviction to make decisions.	18	a) Possible views of the whole. (संपूर्ण के संभावित विचार)	
19       a) Using common sense and conviction to make decisions.         (निर्णय लेने के लिए सामान्य ज्ञान और दृढ़ विश्वास का उपयोग करना)         b) Using data, analysis and reason to make decisions.         (निर्णय लेने के लिए डेटा, विश्लेषण और कारण का उपयोग करना)			
(निर्णय लेने के लिए सामान्य ज्ञान और दृढ़ विश्वास का उपयोग करना) b) Using data, analysis and reason to make decisions. (निर्णय लेने के लिए डेटा, विश्लेषण और कारण का उपयोग करना)	19	,	
b) Using data, analysis and reason to make decisions. (निर्णय लेने के लिए डेटा, विश्लेषण और कारण का उपयोग करना)			
(निर्णय लेने के लिए डेटा, विश्लेषण और कारण का उपयोग करना)			
	20	a) Planning ahead based on projections. (अनुमानों के आधार पर आगे की योजना बनाना)	

# Psychometric Test 1

**Time Limit: 20mins** 

		me Emit : Zomm
	b) Planning as necessities arise, just before carrying out the plans.	
	(योजनाओं को पूरा करने से ठीक पहले योजनाएँ बनाना)	
21	a) Meeting new people. (नए लोगो से मिलना)	
	b) Being alone, or with one person I know well.	
	(अकेला होना, या एक व्यक्ति के साथ जिसे मैं अच्छे से जानता हूँ)	
22	a) Ideas. (विचार)	
	b) Facts. (तथ्य)	
23	a) Convictions. (धारणा)	
	b) Verifiable conclusions. (सत्यापन योग्य निष्कर्ष)	
24	a) Keeping appointments and notes about commitments in notebooks or in appointments	ent books
	as much as possible. (नोटबुक में या नियुक्ति पुस्तकों में प्रतिबद्धताओं के बारे में अधिक से अ	धिक
	नियुक्ति और नोट्स रखना)	
	b) Using appointment books as little as possible (although I may use them). जितना सं	भव हो
	कम नियुक्ति पुस्तकों का उपयोग करना) हालांकि मैं उनका उपयोग कर सकता हूं(	
25	a) Discussing a new, unconsidered issue at length in a group.	1
	)एक समूह में लम्बे समय तक एक नए ,अनकहे मुद्दे पर चर्चा करना(	N
	b) Puzzling out issues in my mind, then sharing the results with another person. (मेरे दिमाग में मुद्दों को सुलझाना, फिर परिणामों को किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा करना।	
26	a) Carrying out carefully laid, detailed plans with precision.	
	(सटीकता के साथ सावधानीपूर्वक रखी गई, विस्तृत <mark>योजना</mark> एं बनाना)	
	b) Designing plans and structures without necessarily carrying them out.	
	(अनावश्यक रूप से योजनाओं और संरचनाओं को डिजाइन करना)	
27	a) Logical people. (तार्किक लोग)	
	b) Feeling people. (भावनात्मक लोग)	
28	a) Being free to do things on the spur of the moment.(क्ष <mark>ण</mark> के बल पर चीजों को करने के स्वतंत्र होना।)	न् लिए
	b) Knowing well in advance what I am expected to do.	
	(अग्रिम में अच्छी तरह से जानना कि मुझे <mark>क्या करने की</mark> उम्मीद है)	
29	a) Being the centre of attraction.) आकर्षण का केंद्र रहा(	
	b) Being reserved. (अलग रहना)	
30	a) Imagining the non-existent. (अस्तित्वहीन की कल्पना करना)	
	a) Examining details of the actual. (वास्तविक विवरण की जाँच)	
31	a) Experiencing emotional situations, discussions and events.	
	(भावनात्मक स्थितियों, चर्चाओं और घटनाओं का अनुभव करना)	
	b) Using my ability to analyse situations.	
	(स्थितियों का विश्लेषण करने की मेरी क्षमता का उपयोग करना)	
32	a) Starting meetings at a pre-arranged time. (एक निर्धारित समय पर बैठक शुरू करना)	
	b) Starting meetings when all are comfortable or ready. (सभी आरामदायक या तैयार हो	।ने पर
	मीटिंग शुरू करना)	
	•	